

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण/Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time	15-10-2025 12:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time	15-10-2025 12:30:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date)	180 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name	Ministry Of Defence
विभाग का नाम/Department Name	Department Of Defence Production
संगठन का नाम/Organisation Name	Garden Reach Ship Builders And Engineers Limited (grse)
कार्यालय का नाम/Office Name	*****
कुल मात्रा/Total Quantity	352
वस्तु श्रेणी /Item Category	DN200_Air Vent Head_Winteb Make , DN125_Air Vent Head_Winteb Make , DN100_Air Vent Head_Winteb Make , DN80_Air Vent Head_Winteb Make , Spare for all sizes of Air Vent Head
GeMARPTS में खोजी गई स्ट्रिंग्स / Searched Strings used in GeMARPTS	AIR VENT HEADS WITH PE-FLOAT BALLS
GeMARPTS में खोजा गया परिणाम / Searched Result generated in GeMARPTS	Laboratory Glass Adapters, Blood Administration Set (V2)
अधिसूचना के लिए चयनित प्रासंगिक श्रेणियाँ / Relevant Categories selected for notification	- Automatic Fire Ball for Fire - Extinguishing - Air Nozzle
बीओक्यू शीर्षक /BOQ Title	AIR VENT HEADS WITH PE FLOAT BALLS FOR TANKS for MPV Project GRSE Yard no 3050 to 3057
एमएसएमई के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है/MSE Exemption for Years of Experience and Turnover	No
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है /Startup Exemption for Years of Experience and Turnover	No
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller	Certificate (Requested in ATC),OEM Authorization Certificate,Compliance of BoQ specification and supporting document *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer

बिड विवरण/Bid Details	
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेनू है/Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	Yes (Documents submitted as part of a clarification or representation during the tender/bid process will also be displayed to other participated bidders after log in)
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	5
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	7
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	1
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled	Yes
रिवर्स नीलामी योग्यता नियम/RA Qualification Rule	H1-Highest Priced Bid Elimination
क्रेता के लिए उपलब्ध आईटीसी/ITC available to buyer	Yes
बिड का प्रकार/Type of Bid	Two Packet Bid
प्राथमिक उत्पाद श्रेणी/Primary product category	DN200_Air Vent Head_Winteb Make
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
निरीक्षण आवश्यक (सूचीबद्ध निरीक्षण प्राधिकरण /जेम के साथ पूर्व पंजीकृत एजेंसियों द्वारा)/Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method	Total value wise evaluation
मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause	No
सुलह खंड/Mediation Clause	No

ईएमडी विवरण/EMD Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईएमडी राशि/EMD Amount	150000

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
-----------------------------	---------------------

ईपीबीजी प्रतिशत (%) / ePBG Percentage (%)	5.00
ईपीबीजी की आवश्यक अवधि (माह) / Duration of ePBG required (Months).	36

(a). जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित केटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने है। एमएसई केटेगरी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।/EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy.

(b). ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

लाभार्थी / Beneficiary :

Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited

ePBG to be submitted as per the standard format to be collected from GRSE. No other format will be accepted.

Vendor has to upload ePBG as per GRSE format on GeM portal to enable them to initiate the billing activities on GeM

(61 Garden Reach Road, Kolkata-700024)

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई खरीद वरीयता/MII Purchase Preference

एमआईआई खरीद वरीयता/MII Purchase Preference	Yes
--	-----

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	Yes
---	-----

1. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore): Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023.

[OM_No.1_4_2021_PPD_dated_18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.

2. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are

excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

3. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

4. Reverse Auction would be conducted amongst all the technically qualified bidders except the Highest quoting bidder. The technically qualified Highest Quoting bidder will not be allowed to participate in RA. However, H-1 will also be allowed to participate in RA in following cases:

- i. If number of technically qualified bidders are only 2 or 3.
- ii. If Buyer has chosen to split the bid amongst N sellers, and H1 bid is coming within N.
- iii. In case Primary product of only one OEM is left in contention for participation in RA on elimination of H-1.
- iv. If L-1 is non-MSE and H-1 is eligible MSE and H-1 price is coming within price band of 15% of Non-MSE L-1
- v. If L-1 is non-MII and H-1 is eligible MII and H-1 price is coming within price band of 20% of Non-MII L-1

If the buyer has mentioned MSE purchase preference in ATC then service provider is required to upload necessary documents for MSE purchase preference for verification by the buyer during evaluation.

DN200_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	28	30

DN125_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	2	30

DN100_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	2	30

DN80_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	11	30

Spare For All Sizes Of Air Vent Head

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	1	30

DN200_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	28	30

DN125_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	2	30

DN100_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	2	30

DN80_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	11	30

Spare For All Sizes Of Air Vent Head

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	1	30

DN200_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	28	30

DN125_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	2	30

DN100_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	2	30

DN80_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	11	30

Spare For All Sizes Of Air Vent Head

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	1	30

DN200_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	28	30

DN125_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	2	30

DN100_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	2	30

DN80_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	11	30

Spare For All Sizes Of Air Vent Head

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	1	30

DN200_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	28	158

DN125_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	2	158

DN100_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	2	158

DN80_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	11	158

Spare For All Sizes Of Air Vent Head

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	1	158

DN200_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	28	249

DN125_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	2	249

DN100_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	2	249

DN80_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	11	249

Spare For All Sizes Of Air Vent Head

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	1	249

DN200_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	28	341

DN125_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	2	341

DN100_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	2	341

DN80_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	11	341

Spare For All Sizes Of Air Vent Head

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	1	341

DN200_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	28	341

DN125_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	2	341

DN100_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	2	341

DN80_Air Vent Head_Winteb Make

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	11	341

Spare For All Sizes Of Air Vent Head

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Kolkata	1	341

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer Added text based ATC clauses

Department :: Commercial Shipbuilding

—

—

Subject:

**Procurement of 'Air Vent Heads with PE-Float Balls for Tanks'
for Multi-purpose Vessel Project GRSE Yard no. 3050 to 3057**

NOTE :-

- Supply of Air Vent Heads with PE-Float Balls for Tanks for MPV Project GRSE Yard no. 3050 to 3057 as per SOTR. - <06 pages attached>.
- Bidders are requested to go through all the clauses / terms of the NIT / tender enquiry before submitting their bids.
- Bidders are requested to indicate the percentage of GST applicable in their bid.
- EMD of ₹ 1,50,000.00 [Rupees One lakh fifty thousand only] is applicable. The same is to be sent in an envelope, clearly indicating the Tender Reference and Due Date, to the tendering authority so as to reach before the tender opening date and time. GRSE shall not be responsible for postal delays, etc. Bids/Offer submitted without EMD within specified date and time will be treated as non-responsive and summarily rejected. Scanned copy of the EMD is to be attached along with the techno-commercial bid. Bidders are requested to kindly submit EMD in the form of either demand draft / bankers cheque / bank guarantee. EMD should be valid for at least 180 days from due date / extended due date of the tender enquiry. New/unregistered bidders are to fill-up and submit the ECS format in case EMD is submitted. Non-submission of correct ECS details might lead to rejection of EMD. GRSE standard ECS format is given at Annexure--J of this enquiry.
- Bidders are required to be registered on the TReDS (Trades Receivables e-Discounting System) - www.invoicemart.com - as per directives of the Government of India. The bidders are to indicate the registration number allotted by TReDS / Invoicemart in their bids. In the event of any bidder not registered in the portal or not indicating the registration details in their bids, GRSE reserves the right to disqualify their bids without assigning any reason whatsoever.

—

-

CONTACT DETAILS FOR QUERIES :-

Query	Name	Contact Number	Email
Technical Specifications	Monoj Kumar Saha Dy. General Manager (Design) (Engg.)	(+91) 33 - 2469 81 01 +91 7604084616	Saha.MonojKumar@grse.co.in
	Debapriya Bitter AM, CDO	(+91) 33 - 2469 81 01 +91 9333419031	Bitter.Debapriya@grse.co.in
Commercial Terms & Conditions	Partha Sarathi Bose Dy. General Manager (CSB)	(+91) 33-2469 810 1, extn. 6049 +91 94334 84780	Bose.ParthaSarathi@grse.co.in
	Padmawati Kisku Sr. Manager (CSB)	(+91) 33-2469 810 1 +91 98204 4676 0	Kisku.Padmawati@grse.co.in
GRSE eProcurement Cell	Saraswata Palit Dy. General Manager (eProcurement)	(+91) 33-2489 390 2 +91 99037 79626	Palit.Saraswata@grse.co.in
	Ajay Kumar Sinha Manager (eProcurement)	(+91) 33-2489 390 2 +91 9147111855	Sinha.AjayKumar@grse.co.in

for GARDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINEERS LTD. (A Govt. of India Enterprise, under the Ministry of Defence),

(Padmawati Kisku)

Sr. Manager (Commercial Ship Building Department | Supply Chain Management)

Regd. & Corp. Office : 61 Garden Reach Road, Kolkata - 700 024.

Correspondence : Commercial Ship Building Department ('D' Block, 1st Floor), GRSE Bhavan Unit, 61 Garden Reach Road, Kolkata - 700 024.

Phone : (033) 2469 8101; extn. 6049 || Email : Kisku.Padmawati@grse.co.in

Website : www.grse.in || CIN : L35111WB1934GOI007891.

2. Scope of Supply

Scope of supply (Bid price to include all cost components) : Only supply of Goods

3. Generic

OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 50 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity up to 50% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. The delivery period of quantity shall commence from the last date of original delivery order and in cases where option clause is exercised during the extended delivery period the additional time shall commence from the last date of extended delivery period. The additional delivery time shall be $(\text{Increased quantity} \div \text{Original quantity}) \times \text{Original delivery period (in days)}$, subject to minimum of 30 days. If the original delivery period is less than 30 days, the additional time equals the original delivery period. The Purchaser may extend this calculated delivery duration up to the original delivery period while exercising the option clause. Bidders must comply with these terms.

4. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer uploaded ATC document [Click here to view the file.](#)

अस्वीकरण/Disclaimer

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.

15. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined by buyer in system generated bid template as indicated above in the Bid Details section, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by GeM GTC.
16. In a category based bid, adding additional items, through buyer added additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogs or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers / Service Providers are mandated to ensure compliance with all the applicable laws / acts / rules including but not limited to all Labour Laws such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972 etc. Any non-compliance will be treated as breach of contract and Buyer may take suitable actions as per GeM Contract.

[यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है /This Bid is also governed by the General Terms and Conditions](#)

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---